

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010—माघ 2, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र.-65-01-10-तीन-605.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, शमशाबाद, जिला विदिशा के आम निर्वाचन, माह जनवरी 2010 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			पार्षद		
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)
1	नगर पंचायत, शमशाबाद, जिला-विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती राधा देवी साहू पत्नी मनोज साहू
		पार्षद	1	एक	श्री सौदान सिंह पिता हरिराम
		पार्षद	2	दो	श्री कलेक्टर सिंह पिता करन सिंह यादव
		पार्षद	3	तीन	श्री विनोद कुमार रत्नाकर पिता रमेश कुमार रत्नाकर.
		पार्षद	4	चार	श्रीमती इन्दु पति प्रेमनारायण
		पार्षद	5	पांच	श्री जुगल किशोर चौकसे पिता जय गोविन्द चौकसे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पार्षद		6	छः	श्री मदन लाल पिता बाबू लाल कुशवाह
	पार्षद		7	सात	श्रीमती मुकलेश पति श्री हीरा लाल साहू
	पार्षद		8	आठ	श्रीमती संध्या कुशवाह पति श्री नारायण सिंह.
	पार्षद		9	नौ	श्रीमती रानी संमत शर्मा
	पार्षद		10	दस	श्रीमती आशा पति रामस्वरूप साहू
	पार्षद		11	ग्यारह	रफीक खॉ पिता जहूर खॉ
	पार्षद		12	बारह	श्रीमती सरोज पति कुलदीप
	पार्षद		13	तेरह	श्रीमती ममता साहू पति हेमन्त साहू
	पार्षद		14	चौदह	श्रीमती भावना पति कमल कुमार
	पार्षद		15	पन्द्रह	श्री रमेश बाबू पिता मुल्ला

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.